



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ४६ पटना, बुधवार, ११ अग्राहायण, १९३१ (श०)
२ दिसम्बर, २००९ (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-५—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-७—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।
भाग-१-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०पी०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-८—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-९—विज्ञापन
भाग-२—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-९-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-३—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-९-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-४—बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

17 नवम्बर 2009

सं० 1/सह.स्था. वि.स.से.पद.-36/07-5408—श्री दीनानाथ मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम दिनांक 16 अक्टूबर 2009 से बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित है। इनके अनुपस्थिति अवधि में प्रभार ग्रहण की तिथि से श्री सतीश कुमार सिंह, (मूल कोटि) प्रबंध निदेशक, सासाराम भभुआ सेन्ट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लि०, सासाराम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ललन राय, उप सचिव।

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

16 नवम्बर 2009

एस०ओ० 268, दिनांक 2 दिसम्बर 2009—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3425, दिनांक 28 जुलाई 2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अमरेश कुमार सिंह, अधिवक्ता, बेगूसराय, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 28 जुलाई 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता।	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि।	अर्हता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अमरेश कुमार सिंह	अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय	28-7-04	बी०ए० एल०एल०बी०	बेगूसराय	

(सं०सं०--ए०/नोट-25/02/4619/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

16 नवम्बर 2009

एस०ओ० 269, एस०ओ० 268 दिनांक 2 दिसम्बर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-ए०/नोट-25/02/4619/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

The 16th November 2009

S.O. 268, dated the 2nd December 2009—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Amresh Kumar Singh, Advocate and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 3425 Dated 28th July 2004 to practice as notary again for the next five years from 28th July 2009

Name of Notary	Residential/ Professional address.	Date of which the name of Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice.	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Amresh Kr. Singh	Advocate Civil Court. Begusarai	28.7.04	B.A. L.L.B.	Begusarai	

(File no.-A/Not-25/02/4619/J)

By order of the Governor of Bihar,
RAJENDRA KUMAR MISHRA
Secretary to the Government.

16 नवम्बर 2009

एस0ओ0 270, दिनांक 2 दिसम्बर 2009—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4756, दिनांक 27 अक्टूबर 2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव, अधिवक्ता जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 27 अक्टूबर 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम।	आवासीय एवं व्यवसायिक पता।	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि।	अर्हता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव	अधिवक्ता, पूर्णियाँ	27-10-04	एल0एल0बी0	पूर्णियाँ	

(सं0सं0-ए0/नोट-12/94/4643/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

16 नवम्बर 2009

एस0ओ0 271, एस0ओ0 270 दिनांक 2 दिसम्बर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-12/94/4643/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

The 16th November 2009

S.O. 270, dated the 2nd December 2009—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Laxmi Narain Srivastawa and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 4756, Dated 27th October 2004 to practice as notary again for the next five years from 27th October 2009.

Name of Notary	Residential/ Professional address.	Date of which the name of Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice.	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Laxmi Narain Srivastawa	Advocate, Purnia	27-10-09	L.L.B.	Purnia	

(File no.-A/Not-12/94/4643/J)
By order of the Governor of Bihar,
RAJENDRA KUMAR MISHRA,
Secretary to the Government.

16 नवम्बर 2009

एस0ओ0 272 दिनांक 2 दिसम्बर 2009—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53, 1952) की धारा-10 की उप-धारा (बी) एवं (एफ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री शिवारमण सिंह, नोटरी, भोजपुर, आरा जिनकी नियुक्ति, नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप संख्या 4702/जे0, दिनांक 27 सितम्बर 1993 द्वारा की गयी थी, के नोटरी अनुज्ञप्ति को, आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त करते हुए, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से इनका नाम हटाने का आदेश देते हैं तथा विशेष परिस्थिति में अभी तक इनके द्वारा किये गये कार्यों को नियमित करते हैं।

(संचिका सं0-ए./नोट-31/92/4692/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

16 नवम्बर 2009

एस0ओ0 273, एस0ओ0 272 दिनांक 2 दिसम्बर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(संचिका सं0-ए./नोट-31/92/4692/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

The 20th November 2009

S.O. 272, dated the 2nd December 2009—In exercise of the powers conferred under sub section (b) and (f) of Section -10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to repeal the notary licence, with effect from the date of issue of the order and to remove, the name of Sri Shiva Raman Singh, Notary, Bhojpur, Ara, who was appointed as notary under Law Department's Notification memo no.4702/J dated 27.09.93 from the register maintained for Notaries under section 4 of the Notaries Act, 1952 and in special circumstances regularise the acts done by him uptill now.

(File No.-A/Not -31/92/4692/J.)

By Order of the Governor of Bihar

RAJENDRA KUMAR MISHRA,

Secretary to the Government.

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

16 नवम्बर 2009

सं० ई2-208/88 (खंड- I)-66—बिहार निर्वाचन सेवा के निम्नांकित अवर निर्वाचन पदाधिकारियों को अवर निर्वाचन पदाधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान रु० 6500-200-10500) से उप-निर्वाचन पदाधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान रु० 10000-325-15200) के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है :-

क्र०	अवर निर्वाचन पदाधिकारी का नाम/वरीयता क्रमांक/गृह जिला
1	2
1	श्री मधु रंजन गुप्ता, 04/2004/ सारण
2	श्री भरत लाल बैठा, 06/2004/ सारण
3	श्री नन्द किशोर राम, 05/2004/ बलिया (उ० प्र०)
4	श्री (डा०) विवेकानन्द झा, 07/2004/ दरभंगा
5	श्री रवीन्द्र कुमार, 08/2004/ प० चम्पारण
6	श्री सत्य प्रकाश, 09/2004/ नालन्दा
7	श्री प्रकाश प्रसाद जायसवाल, 10/2004/ भागलपुर
8	श्री भोला राम, 11/2004/ औरंगाबाद
9	श्री कृष्ण कुमार पाठक, 12/2004/ बक्सर
10	श्री बैजूनाथ कुमार सिंह, 13/2004/ सीतामढ़ी
11	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, 14/2004/ औरंगाबाद
12	श्री रामलला प्रसाद सिंह, 15/2004/ मुजफ्फरपुर
13	श्री मोद नारायण झा, 16/2004/ मधुबनी
14	श्री जय किशोर सिंह, 17/2004/ सीतामढ़ी
15	श्री सुधाकर प्रसाद, 18/2004/ शेखपुरा

16	श्री नौशाद आलम, 19/2004/ बक्सर
17	श्री सियाराम मंडल, 20/2004/ सुपौल
18	श्री राजेन्द्र कुमार कर्मशील, 21/2004/ मुजफ्फरपुर
19	श्री श्रीनिवास, 24/2004/ सीतामढ़ी
20	श्री संजय कुमार मिश्र, 25/2004/ सुपौल
21	श्री अशोक प्रियदर्शी, 26/2004/ रोहतास

2. उपर्युक्त प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान रु० 10000-325-15200 रुपये में वेतन का आर्थिक लाभ देय होगा।

3. उपर्युक्त प्रोन्नति प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम कृष्ण प्रसाद,
उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
—सह-सरकार के उप-सचिव।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
(पशुपालन)

अधिसूचना

4 अगस्त 2009

सं० 1 स्था० (5)08/2008-(अंश) प० पा० 2494—बिहार पशुपालन सेवा वर्ग-2 के पदाधिकारी डा० गिरिजानन्दन शर्मा, सेवा-निवृत्त तदेन शोध पदाधिकारी, (जै०उ०) पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार, पटना के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका सी० डब्लू० जे० सी० 8645/92 में दिनांक 2 मई 1997 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु डा० शर्मा के द्वारा दायर अवमाननावाद सं० 3179/07 के आलोक में डा० गिरिजानन्दन शर्मा को दिनांक 1 जनवरी 1978 के प्रभाव से बिहार पशुपालन सेवा वर्ग-2 के कनीय प्रवर कोटि के वेतनमान रु० 620-1415 (दिनांक 1 अप्रैल 1981 से पुनरीक्षित वेतनमान रु० 1350-2000) में तथा दिनांक 1 जनवरी 1984 के प्रभाव से वरीय प्रवर कोटि वेतनमान रु० 1575-2300 में (दिनांक 1 जनवरी 1986 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान रु० 3700-5000) में औपबन्धिक रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एस० के० तिवारी, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 37-571+30-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

अधीक्षक, का कार्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।

निविदा सूचना

सं० 11142—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में वित्तीय वर्ष 2009-10 में उपयोग आने वाले छोटे औजारों (Instrument) के कय हेतु बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित निर्माताओं/प्राधिकृत विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ आमंत्रित किया जाता है। हस्तलिखित निविदा मान्य नहीं होगी निविदा टंकित/ कम्प्यूटरकृत होना चाहिए। बिहार के बहार के फर्म जो बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित नहीं हैं वे भी निविदा में इस शर्त के साथ भाग ले सकते हैं बशर्ते कि दर अनुमोदन अनुमोदन के पश्चात कय आदेश के पूर्व उन्हें बिहार वाणिज्यकर में निबंधन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश रद्द कर दिया जाएगा तथा द्वितीय अनुमोदित दर वाले निविदादाता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जाएगा। निविदा दो भागों में “तकनिकि एवं वित्तीय” निविदा अलग-अलग लिफाफों में मुहरबंद होगी एवं लिफाफों के उपर छोटे औजारों हेतु तकनिकि निविदा एवं वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। हाथो हाथ एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा अस्वीकृत समझा जाएगा। विस्तृत सूचना एवं औजारों की सूची इत्यादि www.prdbihar.org & www.pmch.in पर डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है या कार्यालय अवधि में किसी भी दिन आवेदन देकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तकनिकि निविदा के साथ सभी अभिलेखों को जमा करना होगा। आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में भविष्य में उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उनका अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जाएगा।

दिनांक: 14 नवम्बर 2009

स्थान: पटना

(ह०) अस्पष्ट,

अधीक्षक।

TENDER TERMS AND CONDITION FOR INSTRUMENTS

1. Tender Should be in two parts (technical / commercial) in two separate sealed envelop mention there on Technical Tender / Commercial Tender for Instruments.
2. Price Quoted in Financial Bid Both without Tax and With Tax.
3. All relevant document i.e. photocopy of PAN card, Authority letter, Quality Certificate, Sales Tax Registration Certificate, Sales Tax Clearance Certificate, Specification of the instruments should be attached along with Technical Tender.
4. Superintendent reserve right to rejects any tender without given any reason.
5. Tender should be computer Type Only. Handwritten and Overwriting tender will be rejected.
6. Tax will be deducted from bill and deposited in Government. account as per Government. norms.
7. Tenderers can attend Purchase committee metting on tender opening date.

8. Tenderers should be registered in Bihar sales tax. If they are not registered at the time of Tender. After selection have to be registered with Bihar sales Tax before the order will be placed.
9. Tenderer should attached bank draft for Rs. 25,000 (Twenty Five Thousand) with Technical Tender as earnest money in the favour of "Superintendent Patna Medical College and Hospital, Patna."
10. Procurement of Instruments should be ISO / good quality as per sample and as per guide line of Government.
11. Annual Turnover of the Tenderer should must have minimum 2 crore in last three consecutive years.

Department of Surgery

Sl. No.	Name of the Instruments
1	Artery Forceps, Curved 6"
2	Artery Forceps, Straight 6"
3	Artery Forceps, Curved 8"
4	Artery Forceps, Straight 8"
5	Alley's Forceps 4"
6	Alley's Forceps 6"
7	Alley's Forceps 8"
8	B.P. Handle No. 4
9	B.P. Handle No. 3
10	Babcock's forceps
11	Bowl Big Size
12	B.P. Instrument
13	Czerney's Retractor
14	Cheatal Forceps (Lifter)
15	Dissecting Forceps. Toothed 6"
16	Dissecting Forceps. Plain 6"
17	Dsjarden's Forceps
18	Deaver's Retractor
19	Drum Big Size
20	Fine Dissecting Forceps, toothed 8"
21	Fine Dissecting Forceps, Plain 8"
22	Gastric Clamp
23	Galli Pot
24	Humby Skin grafting
25	Intestinal Clamps, Big & Small
26	Kocher's artery Forceps, Straight 8"
27	Kocher's artery forceps, curved 8"
28	Kidney Stone Forceps
29	Kidney Tray Big Size

Sl. No.	Name of the Instruments
30	Kidney Tray Normal Size
31	Lane Tissue Forceps
32	Langenbeck's Retractor
33	Mosquito Artery Forceps, Curved
34	Mosquito Artery Forceps, Straight
35	Mosquito Alley's Forceps
36	Moyaniham's Cholecystectomy Forceps
37	Needle Holding Forceps 6"
38	Needle Holding Forceps 3"
39	NSV Set
40	Probe
41	Proctoscope adult size
42	Proctoscope Medium Size
43	Proctoscope Children Size
44	Retrograde bogic
45	Spong Holding Forceps
46	Scalp Forceps
47	Self Retaining Abdominal Retractor
48	Self Retaining Retractor, 2"
49	Self Retaining Retractor, 4"
50	Suction Cannula
51	Scissor Curved
52	Scissor Straight
53	Scissor Fine Curved
54	Stitch Cutting Scissors
55	Sinus Forceps
56	Stethoscope
57	Steel Jug
58	Towel Clip
59	Tuning Syringe
60	Tray
61	Trocar
62	Urinary Bladder Stone Forceps
63	Urethral Dilator Set Male
64	Vascular Clamps

Children O.T.

Sl. No.	Name of the Instruments	Size
1	Allice Tissue Forceps	4" and 6"
2	Babe Cock Tissue Forceps	6" and 8"
3	Bull Dog Clamp	Fine and Adult
4	Curve Artery Forceps	6" and 8"
5	Curve Scissor	8"
6	Czerny's Retractor	Fine
7	Czerny's Retractor	Adult
8	Curved Intestinal Clamp	Fine and Adult
9	Deaver's Retarctor	Adult
10	Double Hook Retractor	Fine
11	Disjarden Forceps	Fine and Adult
12	Fine Needle Holder	4" and 6"
13	Fine Plate Dissecting Forceps	4" and 6"
14	Fine Tooth Dissecting Forceps	4" and 6"
15	Fine Curved Scissor	4" and 6"
16	Fine Straight Scissor	4" and 6"
17	Fine Deaver's Retractor	Fine
18	Humby's Handle	
19	Intestinal Clamp Straight	Fine & Adult
20	Kocher's Clamp (Artery Forceps)	6" and 8"
21	Kidney Stone Holding Forceps	6" and 8"
22	Long Allice Tissue Forceps	8"
23	Long Needle Holder	8"
24	Langen Beack's Retractor	Fine
25	Langen Beack's Retractor	Adult
26	Mosquito Curve Artery Forceps	4"
27	Mosquito Straight Artery Forceps	4"
28	Morri's Retractor	Fine
29	Morri's Retractor	Adult
30	Monyhan's Clamp	Fine and Adult
31	Plain Dissecting Forceps	8"
32	Proctoscope	Fine + Adult
33	Right Angle Artery Forceps	6" and 8"
34	Straight Artery Forceps	6" and 8"
35	Straight Scissor	8"
36	Self Retaining Abdominal Retractor	Fine
37	Self Retaining Abdominal Retractor	Adult
38	Suction Nozzle (Metalic)	Fine and Adult

Sl. No.	Name of the Instruments	Size
39	Tooth Dissecting Forceps	8"

Ortho Instrument for Children O.T.

Sl. No.	Name of the Instrument	Size
1	Amputation Saw	Fine
2	Amputation Saw	Adult
3	Bone Lever	Fine + Adult
4	Burn's Clamp	Fine + Adult
5	Bone Nibbler	Fine
6	Bone Nibbler	Adult
7	Bone Holding Forceps	Fine
8	Bone Holding Forceps	Adult
9	Bone Tap	3.5mm
10	Bone Tap	4.5mm
11	Bone Self Retaining Retractor	Fine
12	Bone Self Retaining Retractor	Adult
13	Bone Cutter	Fine
14	Bone Cutter	Adult
15	Bone Tap	2.5mm
16	Bone Owl	Fine
17	Bone Owl	Adult
18	Curve Periosteum Elevator	10mm
19	Hexagonal Screw Driver	3.5mm
20	Hexagonal Screw Driver	4.5mm
21	I.M. Nailing Punch Forceps	Fine + Adult
22	Lowman's Clamp	Fine
23	Lowman's Clamp	Adult
24	Mechanical Universal Drill	
25	Osteotome	Fine
26	Osteotome	Adult
27	Radius -Ulna Punch Forceps	Fine
28	Radius -Ulna Punch Forceps	Adult
29	Straight Periosteum Elevator	10mm
30	Screw Gauze	
31	T Handle	Adult
32	Tenotomy Knife	Fine
33	Wire Cutter	Fine
34	Wire Cutter	Adult

Department Of Obst. and Gynae

Sl. No.	Name of the Instrument
1	Abdominal Retractor (Blade)
2	Ant. Vaginal Wall Retractor
3	Anaesthesia Caine
4	Anaesthesia Face Mask
5	Cocar Clamp 8" (Curved)
6	Current Blunt & Sharp
7	Doins Abdominal Retractor
8	Green Artery Tag 8"
9	Hegger's Dilator Set
10	Kochin's Clamp Curved
11	Lifetr (Double and Single) 15" each - 3 piece
12	London Retractor
13	Laryngoscope
14	Monyhans (Rightangle)
15	Mosquito Artery Forcep
16	Mymectomy Clamp
17	M.T.P. Cannula (Plastic No:- 6, 8, 10, 12)
18	M.V.A. Syringe
19	Needle Holder
20	Needle Holder Fine
21	Ovum Forcep 10"
22	Sponge Holder 10"
23	Sponge Holder 8"
24	Sim's Speculum
25	Utrerine Round
26	Uterine Holding Forcep
27	Valrilum Forcep (Double)
28	Valrilum Forcep (Single)
29	Wringly's Forcep 10"

Department of Gynae O.P.D.

Sl. No.	Name of the Instrument
1	Ant. Vaginal wall Pet
2	Artery Forceps Curved
3	Artery Forceps Curved
4	Coscos vaginal Speculum
5	Dressing Drum Big Size
6	Dressing Drum Medium Size

Sl. No.	Name of the Instrument
7	Dressing Drum Small
8	Lifter (Clettle Forcep)
9	Long Alice
10	Sims Speculum
11	Scissor Curved
12	Scissor Straight
13	Tray With Cover
14	Uterin Sound
15	Valselum

For Center For Excellence (Laproscope O.T.)

Sl. No.	Name of the Instrument
1	Airways (Auggers9
2	Ambu Bag
3	Gally Pot
4	H.S.G. Cannula
5	Laryngoscope
6	Maggils Forceps
7	Uterine Holding Forcep
8	Uterin Manipulator

Department of Neuro Surgery

Sl. No.	Name of the Instrument
1	Adson Tise PCPS Fen-HDL 1 x 2T 180mm
2	Adson Baby Retractor 3x4 Blunt 140mm
3	Biopolar Coagulation Forceps STR 200M
4	Biopolar Coagulation Forceps 125MM
5	Delicate Thumb Forceps Smooth 185MM
6	Gerald Forceps DEL STR 175MM
7	Gruenwald Forceps Bayo SERR 200 MM
8	Irrigatio Forceps 230mm 1.3MM TIP
9	Kerrison Thin-FT 130 DG-UP 5MM 230MM
10	Kilner Scissors CVD W/Flat Tips 125MM
11	Kerrison 130 DG-UP 4MM 230MM
12	Kerrison 130DG-DWN 4MM 230MM
13	Kerrison 130 DG-UP 5MM 230MM
14	Kraemer Grasping Forceps 150MM
15	Kerrison 130 DG-UP 3MM 180MM
16	Kerrison 130 DG-DWN 3MM 180MM

Sl. No.	Name of the Instrument
17	Kerrison Thin-FT 130DG-UP 3MM 180MM
18	Kerrison Thin-FT 130 DG-DWN 3MM 180MM
19	Metzen-Baum Scissor Del STR 145mm
20	Micro Scissor CVD/BL 225MM
21	Precious Metal Forceps 200mm 10MM
22	Rongeur Wagner Heavy Pattern STR 200mm
23	Roettgen-Ruskin Bone Roungeur 24MM
24	Ronguer Wagner Heavy Pattern STR 200MM
25	Rongeur Wagner Heavy Pattern STR 200mm
26	Stille Bone Rongeur 230MM
27	SEMB Bone Ronguer 240MM
28	Sewall Antrum Rasp Blunt 6MM 200MM
29	Strabismus Sciss Sq HDL B/B CVD 115MM
30	Sypert Rongeur 30DG-UP 5 x 20MM 260MM
31	Sharp Bone CUR#00 FWD-ANG 4.4MM 254MM
32	Self Retaining Retractor
33	Suction Nozle Angular
34	TC Suture Sciss W/I Serr CVD 230MM
35	TC De Bakey Needle Holder Heavy Serr 165MM
36	TC Mayo-III Gar NDL Holder HVY Serr 185MM
37	Wangner Rongeur HVY STR 5.5MM 210MM
38	Waugh DEL Tissue Forceps 1 x 2 180MM
39	Wagner Rongeur HVY STR 5.5MM 210MM

Department of Orthopedic (For New O.T.)

Sr. No.	Name of the Instrument
1	Austin More hip Set 135°
2	Biopolar Hip Instrumentation 135°
3	DHS / DCS - XL Instrumentation
4	Dynamic Compression Plating set for Small Bone
5	Dynamic Compression Plating set for Large Bone
6	Dr. Bakshi Elbow Instrumentation
7	Intra Medulary Nailing Instrumentation
8	Interlocking Nailing For Tibia and Femur
9	Power Drill / Remamer /Saw Full attachment Manman Type
10	PFN Instrumentation (130/135)
11	Supra Condylar Instrumentation
12	Square Nailing Instrumentation For Fore Arm Bone
13	Spine Instrumentation

Sr. No.	Name of the Instrument
14	Shoulder Prothesis Instrumentation
15	Total HIP Set For Modular Type
16	Total Condylar Instrumentation Set
17	Unreamed Humeral Nailing Set
18	Unreamed Tibia Nailing Set
19	Unversal Nail Extractor Tibia/Femur /UHN/PFN
20	7mm Canulated HIP Set

General Instrument :- Bone Drill, Hammer, Screw Driver (3.5 / 4.5), Drill Tape, Osteotome, Cheisel, T-Handle, Gouge, Peristoeum Elevator, Nibbler, Bone Holding Clam, Heygrove, Fore arm Bone Holding, Hofman Retractor, Charnley Hip retractor, Needle Holder, Scissor, Elise Forceps, Artery Forceps, Towel Clip, Tooth Forceps, Wire Bender, Bone File, Drill Point, Wire Passer, Wire Twister, Hollow Mill, Box Chisel.

Department of Orthepedic for New O.T.

Sl. No.	Name of the Instrument
1	Burr Set for Cervical Spine surgery
2	Eschmarch's Bandage
3	Knee Arthroscopy Set
4	Munmun : Drill, Saw, Flexible Reamer, Battery Driven Plaster cutter
5	Shoulder Artroscopy Set
6	Sterilisation Trey

H.I.P

Sr. No.	Name of the Instrument
1	C.C.S. Set
2	Cement Removing Instrumentation (Revision arthroplasty set)
3	D.H.S. Set
4	P.F.N. Set
5	P.H.R. Set
6	T.H.R. Set

FEMUR

Sl. No.	Name of the Instrument
1	ACL Reconstrution Set
2	D.F.N. Set (IMSCN Set)
3	Expert Tibial Nail Set
4	Ender's Nail Set
5	English Pliers-small-5, Big-5
6	Femoral Distractor

Sl. No.	Name of the Instrument
7	Hollow Mill
8	Interlocking Nail set
9	K-Nail Reamer Set (6-14 size)
10	K-Nail Extractor and K-Nail Punch
11	Locking Plate Set
12	Patellar Clamp
13	Screw Removal
14	Total Knee Replacment Set
15	Total Ankle Replacement Set
16	Tendon Stripper for Small Tendons
17	Vascular Clamp (different Sizes)

FOREARM

Sl. No.	Name of the Instrument
1	A.W.L.
2	Extractor Set
3	Reamer Set 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 - 4Set
4	Radial Punch
5	TENS Instrumentation Set

INSTRUMENTS

Sl. No.	Name of the Instrument
1	Alles Forceps different Sizes 6 and 8 inches - 100
2	Artery Forceps; different sizes, curved and Straight, Mosquito (6 Inches) (8 Inches)
3	B.P. Handle No:- 3 and 4
4	Bone Holder Lane's - 6 Lion's - 6 Radial Clamp - 6 Unlar Clamp - 6
5	Bone Gouge - 5mm, 10mm, 15mm
6	Bone Nibble - Straight - 4, 6, 8 inch - 6pc. Each Curved - 4, 6, 8 inch - 6 pc. Each
7	Bone Cutter - Straight - Small, Medium, Large
8	Bone Lever Diff. Sizes (cobra type)
9	Bone AWL
10	Bone File-Small, Medium, Large
11	Box Chisel
12	Gaint Nibbler

Sl. No.	Name of the Instrument
13	Graft Impactor
14	Hand Drill, Electric Drill
15	Hammer - 50gm, 100gm, 200gm, 1 pound
16	Hand Saw
17	Humbe's Knife-Skin Grafting Handle - 4
18	K-Nail Cutter
19	K Wire Bender
20	Kocher's Forceps
21	Needle Holder, Straight and Curve Type 4, 6, 8, 10 inches
22	Osteotome- Straight - 2mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm
23	Osteotome- With Replacable Handle Curved - 2mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm - 4 pc. Each
24	Periosteal Elevator, Straight with hand grip - 2mm, 5mm, 10mm, 15mm , Curved - 5mm, 10mm, 15mm - 6 each
25	Plate Holders
26	Plain Forceps (Diff Sizes
27	Plaster Cutter
28	Retractors:- (a) Skin Hook Retractor (b) Single Hook Retractor (c) Multiple Hook Retractor (d) Langenbach - 5mm, 10mm, 15mm (e) Jerney's Retractor (f) Hoffman Retractor (g) Big Retractor
29	Reduction Clamp
30	Sponge Holding Forceps - 10
31	Scissor Straight - 6 inches 12 8 Inches - 12 Curved - 6 Inches - 25 8 Inches - 25 Fine Scissor 15
32	Steinman Pin Cutter
33	Saw Handle - Small and Medium
34	Towel Clip, Locking Type- Diff. Size 100 Pc.
35	Toothed Forceps - diff. Sizes
36	Wire Cutters - Small, Medium, Large
37	Wire Passers

HUMERUS

Sl. No.	Name of the Instrument
1	Bone Tap - 3.5, 2.4, 6.5
2	D.C.P. Set - 3.5mm, 4mm
3	Humerus Interlocking Nail Set Including Proximal Humeral Nail (PHN)

Sl. No.	Name of the Instrument
4	Locking Plate Set
5	Microplate and Screw set for Hand Surgery
6	Nail Benders
7	Plate Benders
8	Screw Drivers— Simple and Hexagonal (Extra 6 pc.) Excliding set
9	Tatal and Partial Shoulder Replacement Set
10	Total Elbow Replacemnet set

SPINE

Sr. No.	Name of the Instrument
1	Burr Set for cervical spine surgery
2	Cobb's Periosteal Elevator
3	Carrison's Punch - 1mm, 2mm, 3,, - double action
4	Dura Retractors
5	Disc Forceps - 1mm, 2mm, 3mm, 4mm (Serrated)
6	Disc Replacement Set
7	Mastoid Type Self Retaining Retractors
8	Nibblers - diff Sizes ; Curve
9	Nerve Root Retractors
10	Other Specialised Instruments
11	Pedicular Screw Set
12	Pinnechottee Type Self Retaining Retracotrs
13	Roenger's
14	Vertebra Separators

PELVIS

Sr. No.	Name of the Instrument
1	Pelvic Clamp of Different Types and sizes.

HAND SURGERY INSTRUMENTS

Sl. No.	Name of the Instrument
1	D.C.P. Mini Plating Set
2	Drill Tap 2.7mm / Drill Point
3	Fine Dissecting Forceps
4	Fine Artery Forceps and Ellis Forceps
5	Fine Needle Holders
6	Fine Skin Traction Hook
7	JESS Fixator
8	K Wire Instrument Set

Sl. No.	Name of the Instrument
9	Optical Magnification - 4 x 10
10	Screw Driver - 2mm
11	Tourniquet
12	Wrist Fixator (asculap Clamp)

DEPARTMENT OF ENT

Sl. No.	Name of the Instrument	
1	Adson Plain Forcep	
2	Adson Tooth Forceps	
3	Antral Wash Rubber Hiqinson Syringe	
4	Auf Right Naral Retractor	
5	Aufri CHT Nasal Rasp	
6	Antrum Curette Oval 19 cm.	
7	Antrum Ball Probe	
8	Antrum Punch backward through cutting working length 13 cm Adult size bite	
9	Aigley Saw	
10	Down side backward cutting	
11	UP side backward cutting	
12	Antrum Punch through cutting	
13	Blakesley Nasal Forcep Straight Working Length - 11 cm. 0 - 3mm 0- 4mm 90° - 3mm 45° - 3mm	
14	Anal Metal Syringe small size	
15	Aural Metal Syringe small size	
16	Anterior Commisure cownsoceps with fiber length carrier small, medium, large	
17	Beals Raspotry	
18	Ballenger Swivel Knife Bayonet	
19	Birkett Tonsil Artery Forceps	
20	Birkett Tonsil Artery Forceps	
21	Bio Instruments	
22	Band Paiker Handle No. 7, No. 3, No. 4	
23	Biopsy Cut Forceps 25cm, 35cm, 45cm, 55cm	
24	Bronchoscope suction Tube 35cm, 45cm, 55cm.	
25	Cutter Burs (in mm) 6mm, 5mm, 4.5mm, 4mm, 3.5mm, 3.1mm, 2.7mm, 1.8mm, 1.4mm, 1mm, 0.8mm, 0.6mm	

Sl. No.	Name of the Instrument	
26	Diamond Pasts Burrs (in mm) 6mm, 5mm, 4.5mm, 4mm, 3.5mm, 3.1mm, 2.7mm, 1.8mm, 1.4mm, 1mm, 0.8mm, 0.6mm	
27	Cottler Uper Lateral Exposing Retractor Alar Retractor Kilner Retractor	
28	Cottler Blunt Retractor	
29	Colver Tonsil Holding Forceps	
30	Denis Browne Tonsil Holding Forceps	
31	Davis Boyls Month gaq sets	
32	Draffin Bipod Stand	
33	Dingman Mouth Gag with Tounger Plates	Fine
34	Eve Tonsil Snare	
35	ENT Head Nurrans Murphy	
36	Freer Elevator Double Ended	
37	Foman Angular Scissors	
38	Frazeer Suction Tube ball ends	
39	Fess Sickel Knife 19 cm	
40	Fuller Tracheostomy Tube No:- 18FG, 20FG, 22FG, 24FG, 26FG, 28FG, 30FG, 32FG, 34FG, 36FG.	2.5 mm
41	Forcislody forceps 25cm, 35cm, 45cm, 55cm	
42	Gardinar Turning forks (Steel) 256, 512, 1024 (Frequency)	
43	GiLLies Chisel 2mm, 4mm, 6mm	
44	Gilles Osteotome 2mm, 4mm, 6mm, 8mm	
45	House graft press forceps	
46	House Dieter Malleus Nippers	
47	House Curette Double Ended	
48	House Measuring Rods	
49	Hart Mann Nasal Speculum	
50	Howarth Elevator	
51	Heymann Turbinectomy Scissors	Straight
52	Hiens Otoloscope big battery	Curved on side
53	Jobson Horm Probes	
54	Jansen Osteotome 140mm x 2mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm.	
55	Joseph Nasal Elevator	
56	Joseph Nasal Rasp Fine	
57	Joseph Nasal Saw Right, Left	
58	Jennings Mouth Gag	
59	Jackson Graspin Laryngeal Forceps 25cm, 35cm, 45cm, 55cm	

Sl. No.	Name of the Instrument	
60	Jackson Biopsy Punch Forceps 25cm, & Basket Lever Jar 35cm, 45cm, 55cm.	
61	Jackson Alligator forceps 25cm, 35cm, 45cm, 55cm	
62	Jewellers Micro Forceps No. 5	
63	Jewellers Micro Forceps No. 7	
64	Kavo Micro Hand Piece Straight	
65	Kavo Micro Hand Piece Angled	
66	Killian Nasal Speculum 5cm, 6.5cm, 7.5cm, 9cm. Killian Nasal Gauge	
67	Kerrison Punch upward cutting fine	
68	Kerrison Punch upward cutting 45°	
69	Knapp Columnella Forceps	
70	Lempert Endaural Speculum	
71	Lempert Ronguer, Double Action Curved	
72	Lempert Mastoid Curette 1 number, 2 number, 3 number, 4 number	
73	Larkin Penetrator (Burr)	
74	Larkin Perforator	
75	Luc Nasal Turbinat Forceps Oval A, B, C	
76	Lempert Suction and irrigation Tube size 1, 2, 3, 4 Micro Aural Scissors Right Curved, Left Curved.	
77	Langen Beck Retractor small, Medium	
78	Laryngeal Biopsy punch Forceps 25cm, 35cm, 45cm, 55cm	
79	Laryngeal Suction Tube 1.5mm:- 25cm & 35cm, 2mm:- 25cm & 35cm, 2.5mm:- 25cm & 35cm.	
80	MC - GEE Wire Chosing Forceps	
81	Micro Instrument box	
82	Masing Elevator with Graduated	
83	Mallet	
84	Micro Aural Crocodile Forcep serrated Fine 1 & 2 Teeth	
85	Micro Aural Cup Forceps Fine RT Straight, Curved, Left Curved	
86	Magill Intra Tracheal Catheter Forceps Medium	
87	Machintosh Laryngoscope 4 blades	
88	Magill Laryngoscope 4 blades	
89	Micro Laryngeal Scissor Straight, Curved right, Curved Left	
90	Micro Laryngeal Round Knife 45°	
91	Micro Laryngeal Palatopharyngeal Knife	
92	Micro Laryngeal Pedicle Knife	
93	Micro Laryngeal Probe 90°	

Sl. No.	Name of the Instrument	
94	Micro Laryngeal Sickle Knife Straight	
95	Micro Laryngeal Sickle Knife Curved	
96	Micro Spring Scissor straight	
97	Micro Spring Scissor curved	
98	Micro Spring Needle holder curved	
99	Nasal Scissor Serrated Blades Working Length 13 cm, Curved Left & Curved Right.	
100	Oval Cutting Burs 5mm, 6mm, 7mm	
101	Plaster 2 x 2 Prongs Self Retaining Retractor	
102	Plaster First Incision Knife	
103	Patterns Biopsy Forceps 25cm, 35cm, 45cm, 55cm	
104	Rosen Aural Slotted specula	
105	Rosen Elevator wide length	
106	Rosen Curved Circular cutting knife	
107	Rozner nasal osteo tone 6mm & 8mm	
108	Suction Tubing Nylone	
109	Suction Cannulas	
110	(i) Lempert Mostoid Suction Tube No. 1, 2, 3, 4	
111	(ii) Verhoeven Suction Tubes SWG No. 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24	
112	(iii) Ferguson suction tube ball ended No. 1, 2, 3, 4	
113	Sickle Knife	
114	Shea Piston Depth Gauge 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm	
115	SMR Elevator One Side Straight	
116	SMR Elevator One Side Curved	
117	ST Bartholomews Ethmoid Punches Straight & Up ward	
118	Skin Biopsy Punch Forceps	
119	Silver chisel Right, Left, straight	
120	Silver Skin Grafting Knife for Shaving Blade	
121	Single Pneumatic Speculum Tilley aural forceps	
122	Stethoscope	
123	Sackson Tracheostomy Tube metal No:- 12 FG, 14FG, 16FG, 18FG, 20FG, 22FG, 24FG, 26FG, 30FG, 32FG, 34FG, 36FG, 38FG.	
124	Silicon Tracheostomy Tubes 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 9mm	
125	Tilley Lichtwitz Artral Trocar cannula	
126	Through Cutting Frontal Sinus Punch Forceps 55° up turned double action cup jaws 2mm working Length 14.5 cm vertical opening	
127	Tracheal Sets Tracheal dilators, Tracheal Retractors	
128	Tonsil Needle Holder	

Sl. No.	Name of the Instrument	
129	Veicken Antrum Cannula 15 cm Luer Lock Long Curved	
130	Vocal Nodule Forceps 25cm, 35cm, 45cm, 55cm	
131	Wullstein Self Retaining Retractor (3 x 4 prongs)	
132	Wullstein Needle Strong Curved Sharp	
133	Wullstein Micro Pick 45° Angles	
134	Watson Williams Nasal Polypus Forceps	
135	Waugh Dissecting Forcep Fine 1 x 2 teeth 15 cm.	
136	Wire cutting Scissors	
137	Wood tonsil Scissors Curved	
138	Waugh Tonsil Dissection Forceps Plain & Tooth	
139	Yankauer Tonsil Suction Tube	
140	Zoellener Suction Tube	

Place: Patna

Date: 14th November 2009

Superintendent,

Patna Medical College and Hospital.

प्रकाशनार्थ घोषणा-पत्र

मैं राजेश कुमार, पिता श्री अनुग्रह प्रसाद वर्नवाल, निवास-ए/12, अंजलि एपार्टमेंट, बोरींग रोड, पटना-800001, इस पत्र द्वारा सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा उपनाम (टाईटल) बदलकर राजेश गुप्ता हो गया है। जिसका एफिडेविट नं० 581, दिनांक 22 जून 2006 है।

प्रकाशनार्थ घोषणा-पत्र

सूचित किया जाता है कि श्रीमती ज्योति कुमारी वर्नवाल, पति श्रीमान राजेश गुप्ता ने अपना नाम बदलकर ज्योति गुप्ता कर लिया है। एफिडेविट नं० 581, दिनांक 22 जून 2006, से वह ज्योति गुप्ता के नाम से जानी जायेगी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 37—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>